

ज्ञापन

भोपाल, दिनांक : 13/11/2017

प्रति,
अध्यक्ष
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर
भोपाल- 462016

द्वारा,
म.प्र. पर्यावरण अधिकार मंच,
एच.आई.जी 1/8 , शिवानी कॉम्पलेक्स,
6 नं स्टॉप, शिवाजी नगर
भोपाल-462 016
मो. : 9826713114

विषय : एम.पी.पीसीबी मे व्याप्त धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्ञापन ।

हम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के तमाम अंचलो से आये हुए पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न प्रतिनिधियों की ओर से म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मे व्याप्त भारी धांधलियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ निम्नानुसार ज्ञापन सौपते है कि हमारी निम्न लिखित माँगो पर तत्काल कार्यवाही की जाकर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनो, पर्यावरण एवं प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य को सुरक्षित एवं संरक्षित किया जाये :

1. म.प्र. नियंत्रण बोर्ड मे विगत दो वर्ष से अध्यक्ष का पद खाली पडा है अतः निम्नानुसार तत्काल किसी योग्य व्यक्ति का नामांकन किया जाये।
2. विगत तीन वर्षो से नियंत्रण बोर्ड मे मेम्बर सेक्रेट्री का पद रिक्त पडा है उस पर काम कर रहे कार्यकारी को भी तीन वर्ष से अधिक समय बीत चुका है अतः नियमानुसार मेम्बर सेक्रेट्री की तत्काल नियुक्ति की जाये।
3. नियंत्रण बोर्ड के द्वारा, हाई कोर्ट और एनजीटी के तमाम आदेशो पर खानापूरी करने के बजाय वास्तविक क्रियावयन किया जाये।
4. नियंत्रण बोर्ड मे व्याप्त गम्भीर भ्रष्टाचार समाप्त करने हेतु, तीन वर्षो से अधिक समय से जमे हुए समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों (आर.ओ) का तत्काल स्थानानंतरण किया जाये।
5. जल, वायु, ध्वनि और भूमि के मापन के लिए पर्याप्त संख्या मे नवीनतम उपकरण खरीदे जायें।
6. वायु, जल और ध्वनि प्रदूषकों की सम्पूर्ण प्रदेश के विभिन्न शहरो और समस्त संवेदनशील क्षेत्रो की तत्काल रीयल टाइम मॉनेटरिंग प्रारंभ की जाये।
7. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल और वायु के विश्लेषण और परिणामो के साथ छेड-छाड बंद करें और वास्तविक तथा सही परिणाम जनता और कोर्ट के समक्ष, प्रस्तुत करे।
8. नियंत्रण बोर्ड द्वारा रोज-रोज नये - नये वाहनो की खरीदी और सेमिनारो के नाम पर दावत का ढकोसलापन बंद हो।

यदि हमारी उपरोक्त माँगो पर एक माह के भीतर प्रभावी कार्यवाही नही की गई तो मजबूरन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खिलाफ पूरे प्रदेश मे आंदोलन किया जायेगा ।

ज्ञापन प्रस्तुतकर्ता :

1. डॉ. सुभाष सी. पाण्डेय (भोपाल)
2. श्री मनीष शर्मा (ग्वालियर)
3. श्री अक्षय हुंका (भोपाल)
4. श्री शफीक खान, दीपक ठाकुर, कल्पना राय, इंद्रजीत सैनी, राम कुमार (सागर)
5. श्री यू. एस. तिवारी (भोपाल)
6. श्री नीरज चौरसिया (विदिशा)
7. श्री शरद कुमरे (भोपाल)
8. श्री राशिद नूर खान (भोपाल)
9. अभय बानगात्री (नरसिंहपुर)
10. अनुराग डेंगरे (जबलपुर)
11. मनोज शुक्ला (नरसिंहपुर)
12. पीयूष सोन